



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक 1932 (श0)
(सं0 पटना 741) पटना, बुधवार, 3 नवम्बर 2010

पत्र सं0 4 पी0 (2) 08/09-प0पा0—3352

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(पशुपालन)

प्रेषक,

श्री जय नारायण सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना—15, दिनांक 17 अगस्त 2010

*द्वारा:— वित्त विभाग।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्लान योजनान्तर्गत चालित केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बिहार पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की योजना के तहत अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 61 यो0 प्रा0 / यो0वि0 पटना, दिनांक 18 मार्च 2010 के द्वारा बिहार पशु चिकित्सा परिषद के बढ़ते कार्यकलापों को देखते हुए परिषद को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने हेतु भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 तथा बिहार पशु चिकित्सा परिषद नियमावली, 1998 में निहित प्रावधानों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में स्वीकृत एक पद कम्प्यूटर ऑपरेटर के अतिरिक्त निम्नांकित चार पदों की स्वीकृति प्रदान किया गया है:—

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

क्र०सं०	स्वीकृत पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद
1	2	3	4
1	रजिस्ट्रार	37400-67000+8700(GP)	01
2	अधीक्षक तकनीकी	15600-39100+5400(GP)	01
3	लिपिक	5200-20200+1900(GP)	02
4	पूर्व से स्वीकृत एक पद कम्प्यूटर ऑपरेटर	9300-34800+4200(GP)	01
	योग		05

विस्तृत विवरणी संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 में विभागीय राज्यादेश सं० 4474 दिनांक 24 नवम्बर 2009 द्वारा बिहार पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की योजना की स्वीकृति एवं अवधि विस्तार प्रदान की गई है।

(3) बिहार पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की योजना "केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत 50 (प्रतिशत) व्यय भार केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत व्यय भार बिहार सरकार द्वारा वहन की जाती है। बिहार पशु चिकित्सा परिषद नियमावली-1998 के नियम-86 (परिशिष्ट-1) के बिहार पशु चिकित्सा परिषद की सेवा गठन हेतु राज्यहित में परिषद के कार्यों का विधिवत् संचालन हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर के अतिरिक्त चार पदों यथा रजिस्ट्रार का एक पद, अधीक्षक तकनीकी का एक पद तथा लिपिक का दो पद सृजन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रदान की जाती है।

(4) प्रासांगिक योजना के तहत कम्प्यूटर ऑपरेटर का एक पद विभागीय राज्यादेश सं० 701 दिनांक 30 जनवरी 1991 द्वारा सृजित किया गया है।

(5) इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन बजट शीर्ष 2403- पशुपालन राज्य योजना-106-अन्य पशुधन विकास मांग सं०-2-0102 पशु चिकित्सा पर्वद, विपत्र कोड पी 2403001060102 एवं मुख्य बजट शीर्ष 2403-पशुपालन-केन्द्र प्रायोजित योजना-106- अन्य पशुधन विकास-मांग सं०-2-0606 पशु चिकित्सा पर्वद, विपत्र कोड सी 2403001060606 के तहत किया जाएगा।

(6) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रजिस्टार (पदेन) बिहार पशु चिकित्सा परिषद, बिहार, पटना होंगे। निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्रि, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

(7) इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(8) इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(9) इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(10) इस योजना के तहत सम्पूर्ण स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना से की जाएगी।

(11) इसमें योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
जय नारायण सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2010-11 में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की योजना के अन्तर्गत सृजित किये जाने वाले पदों पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी (राशि रुपये में)

क्र० सं०	पद एवं मद का नाम	वेतनमान	सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या	एक मद का वेतन	एक वर्ष का वेतन	मंहगाई भत्ता @ 37%	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	धुलाई भत्ता	योग (6+7+8+9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रजिस्ट्रार	37400-67000+8700 (GP)	1	46100	553200	204680	110640	1000	2400	0	871920
2	अधीक्षक तकनीकी	15600-39100+5400 (GP)	1	21000	252000	93240	50400	1000	2400	0	399040
3	लिपिक	5200- 20200+1900 (GP)	2	30400	364400	134980	72880	1000	2400	0	575660
4	कम्प्युटर ऑपरेटर (यह पद पूर्व से ही सृजित है।	9300- 34800+4200 (GP)	1	21350	256200	94794	51240	700	2400	0	405334
योग			5		1425800	527694	285160	3700	9600	0	2251954

केन्द्रांश-1125977

राज्यांश-1125977

योग-2251954

जय नारायण सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 741-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>